



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 645]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 11, 2009/कार्तिक 20, 1931

No. 645]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 11, 2009/KARTIKA 20, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2009

सं. 124/2009-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 809(अ).—अभिहित प्राधिकारी, चीन जनवादी गणराज्य, थाईलैंड और विएतनाम (जिसे इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जिसे इसके बाद उक्त सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम भी कहा गया है) की पहली अनुसूची के उपशीर्ष 5402 47 00 के अंतर्गत आने वाले पूर्णतः बटे हुए अथवा पूर्णतः विन्यासित यार्न स्पिन ड्रा यार्न पॉलिएस्टर के फ्लैट यार्न (बिना बुना हुआ और बिना पी.ओ.वाई.) (जिसे इसके बाद संबद्ध माल कहा गया है) के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1, तारीख 27 जनवरी, 2009 में प्रकाशित अपने प्रारंभिक निष्कर्ष अधिसूचना सं. 14/3/2008-डीजीएडी, तारीख 23 जनवरी, 2009 के द्वारा, इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि :-

(क) भारत को संबद्ध देशों से संबद्ध माल का निर्यात उसके सामान्य मूल्यों से कम कीमत पर किया गया था;

(ख) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई थी;

(ग) संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण यह क्षति हुई थी;

और, अभिहित प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यात किए, संबद्ध माल के आयातों पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की थी;

और, जबकि, अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 29/2009-सीमा-शुल्क तारीख 26 मार्च, 2009 जो कि सा.का.नि. 201(अ), तारीख 26 मार्च, 2009 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित हुई थी के द्वारा संबद्ध माल पर, अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और, जबकि, अभिहित अधिकारी अपने अंतिम निष्कर्षों अधिसूचना सं. 14/3/2008-डीजीएडी, तारीख 29 सितम्बर, 2009 जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1, तारीख 5 अक्टूबर, 2009 में प्रकाशित हुई, से इस निर्णय पर पहुंचे थे कि—

(क) भारत को सम्बद्ध देशों से संबद्ध माल का निर्यात उसके सामान्य मूल्यों से कम कीमत पर किया गया था ;

(ख) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई थी;

(ग) संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण यह क्षति हुई थी;

और, अभिहित प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में मूलतः उद्गमित या वहां से निर्यात किए, संबद्ध माल के आयातों पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की थी ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) के साथ पठित उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 और 20 के अधीन अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त जांच परिणाम के आधार पर अधोलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में वर्णित देशों में उद्गमित, उक्त सारणी के स्तम्भ (7) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित, उत्पादकों द्वारा उत्पादित, भारत में आयात किए गए, संबद्ध मालों पर जो कि उक्त सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित, उक्त सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के उपशीर्ष के अंतर्गत आते हैं, जिनका विवरण उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दिया गया है, और जिनकी विशिष्टता उक्त सारणी के स्तम्भ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दी गई है, जब उनका निर्यात उक्त सारणी के स्तम्भ (6) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित देशों से उक्त सारणी के स्तम्भ (8) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित निर्यातकों द्वारा किया जाए, उक्त सारणी के स्तम्भ (9) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित राशि, के समतुल्य दर पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करती है जो कि उक्त सारणी के स्तम्भ (11) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित करेंसी और उक्त सारणी के स्तम्भ (10) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित प्रति मापन इकाई में व्यक्त है।

सारणी

क्रम सं.	टैरिफ मद	माल का विवरण	विशिष्टता	उद्गम	निर्यातक	उत्पादक	निर्यातक	राशि	माप की इकाई	करेंसी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	5402 47	पूर्णतः बटे हुए अथवा पूर्णतः विन्यासित यार्न स्पिन ड्रा यार्न पालिएस्टर के फ्लैट यार्न (बिना बुना हुआ और बिना पी.ओ.वाई.)	कोई	चाइना पीआर	चाइना पीआर	टॉगकुन ग्रुप कं. लि.	टॉगकुन ग्रुप कं. लि.	240	मी. टन	अमरीकी डालर
2.	5402 47	पूर्णतः बटे हुए अथवा पूर्णतः विन्यासित यार्न स्पिन ड्रा यार्न पालिएस्टर के फ्लैट यार्न (बिना बुना हुआ और बिना पी.ओ.वाई.)	कोई	चाइना पीआर	चाइना पीआर	टॉगकुन ग्रुप हेंगशेंग केमिकल फाइबर कं. लि.	टॉगकुन ग्रुप हेंगशेंग केमिकल फाइबर कं. लि.	247	मी. टन	अमरीकी डालर
3.	5402 47	पूर्णतः बटे हुए अथवा पूर्णतः विन्यासित यार्न स्पिन ड्रा यार्न पालिएस्टर के फ्लैट यार्न (बिना बुना हुआ और बिना पी.ओ.वाई.)	कोई	चाइना पीआर	चाइना पीआर	जियानशू हेंगली केमिकल फाइबर कं. लि.	जियानशू हेंगली केमिकल फाइबर कं. लि.	256	मी. टन	अमरीकी डालर
4.	5402 47	पूर्णतः बटे हुए अथवा पूर्णतः विन्यासित यार्न स्पिन ड्रा यार्न पालिएस्टर के फ्लैट यार्न (बिना बुना हुआ और बिना पी.ओ.वाई.)	कोई	चाइना पीआर	चाइना पीआर	उपर्युक्त सं. 1 से 3 से भिन्न कोई संयोजन		547	मी. टन	अमरीकी डालर
5.	5402 47	पूर्णतः बटे हुए अथवा पूर्णतः विन्यासित यार्न स्पिन ड्रा यार्न पालिएस्टर के फ्लैट यार्न (बिना बुना हुआ और बिना पी.ओ.वाई.)	कोई	चाइना पीआर	चाइना पीआर से इतर कोई	कोई	कोई	547	मी. टन	अमरीकी डालर
6.	5402 47	पूर्णतः बटे हुए अथवा पूर्णतः विन्यासित यार्न स्पिन ड्रा यार्न पालिएस्टर के फ्लैट	कोई	उस देश/देशों से इतर कोई देश जिन पर	चाइना पीआर	कोई	कोई	547	मी. टन	अमरीकी डालर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		यार्न (बिना बुना हुआ और बिना पी.ओ.वाई.)		पाटनरोधी शुल्क लागू है						
7.	5402 47	पूर्णतः बटे हुए अथवा पूर्णतः विन्यासित यार्न स्पिन डा यार्न पालिएस्टर के फ्लैट यार्न (बिना बुना हुआ और बिना पी.ओ.वाई.)	कोई	वियतनाम	वियतनाम	कोई	कोई	350	मी. टन अमरीकी डालर	
8.	5402 47	पूर्णतः बटे हुए अथवा पूर्णतः विन्यासित यार्न स्पिन डा यार्न पालिएस्टर के फ्लैट यार्न (बिना बुना हुआ और बिना पी.ओ.वाई.)	कोई	वियतनाम	वियतनाम से इतर कोई	कोई	कोई	350	मी. टन अमरीकी डालर	
9.	5402 47	पूर्णतः बटे हुए अथवा पूर्णतः विन्यासित यार्न स्पिन डा यार्न पालिएस्टर के फ्लैट यार्न (बिना बुना हुआ और बिना पी.ओ.वाई.)	कोई	उस देश/देशों से इतर कोई देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	वियतनाम	कोई	कोई	350	मी. टन अमरीकी डालर	
10.	5402 47	पूर्णतः बटे हुए अथवा पूर्णतः विन्यासित यार्न स्पिन डा यार्न पालिएस्टर के फ्लैट यार्न (बिना बुना हुआ और बिना पी.ओ.वाई.)	कोई	थाईलैंड	थाईलैंड	इंडोरमा पॉलिएस्टर इंडस्ट्रीज पब्लिक कंपनी लिमिटेड (पूर्ववर्ती इंडोपोली थाईलैंड लि.)	इंडोरमा पॉलिएस्टर इंडस्ट्रीज पब्लिक कंपनी लिमिटेड (पूर्ववर्ती इंडोपोली थाईलैंड लि.)	80	मी. टन अमरीकी डालर	
11.	5402 47	पूर्णतः बटे हुए अथवा पूर्णतः विन्यासित यार्न स्पिन डा यार्न पालिएस्टर के फ्लैट यार्न (बिना बुना हुआ और बिना पी.ओ.वाई.)	कोई	थाईलैंड	थाईलैंड	उपर्युक्त क्र. सं. 10 से भिन्न कोई संयोजन		490	मी. टन अमरीकी डालर	
12.	5402 47	पूर्णतः बटे हुए अथवा पूर्णतः विन्यासित यार्न स्पिन डा यार्न पालिएस्टर के फ्लैट यार्न (बिना बुना हुआ और बिना पी.ओ.वाई.)	कोई	थाईलैंड	थाईलैंड से इतर कोई	कोई	कोई	490	मी. टन अमरीकी डालर	
13.	5402 47	पूर्णतः बटे हुए अथवा पूर्णतः विन्यासित यार्न स्पिन डा यार्न पालिएस्टर के फ्लैट यार्न (बिना बुना हुआ और बिना पी.ओ.वाई.)	कोई	उस देश/देशों से इतर कोई देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	थाईलैंड	कोई	कोई	490	मी. टन अमरीकी डालर	

2. इस अधिसूचना के अधीन अधिरोपित अनंतिम प्रतिपादन शुल्क तारीख 26 मार्च, 2009 से जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, पांच वर्ष के लिए प्रभावी होगा (यदि उसका खंडन, अधिकृत और संशोधन न किया जाए) प्रतिपादन शुल्क भारतीय करेंसी में संदेय होगा।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए प्रतिपादन शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू विनिमय दर वह दर होगी जो सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर जारी की गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है और विनिमय दर के अवधारण के लिए सुसंगत तारीख उक्त सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अधीन प्रवेश पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी।

[फा. सं. 354/29/2009-टीआरयू]

प्रशान्त कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2009

No. 124/2009-Customs

G.S.R. 809(E).—Whereas, in the matter of import of All Fully Drawn or Fully Oriented Yarn/Spin Draw Yarn/Flat Yarn of Polyester (non-textured and non-POY) (hereinafter referred to as the subject goods), falling under sub-heading 5402 47 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), (hereinafter referred to as the said Customs Tariff Act), originating in, or exported from, the People's Republic of China, Thailand and Vietnam (hereinafter referred to as the subject countries) and imported into India, the designated authority in its preliminary findings *vide* notification No. 14/3/2008-DGAD dated the 23rd January, 2009 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 27th January, 2009 had come to the conclusion that—

- (a) the subject goods had been exported to India from the subject countries below their normal value;
- (b) the domestic industry had suffered material injury; and
- (c) the injury had been caused by the dumped imports from the subject countries;

and had recommended imposition of provisional anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in, or exported from, the subject countries;

And, whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed provisional anti-dumping duty on the subject goods *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 29/2009-Customs, dated 26th March, 2009, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 201(E), dated the 26th March, 2009.

And, whereas, the designated authority in its final findings *vide* notification No. 14/3/2008-DGAD dated the 29th September, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 5th October, 2009, had come to the conclusion that—

- (a) the subject goods had been exported to India from subject countries below its normal value;
- (b) the domestic industry has suffered material injury; and
- (c) the injury had been caused by the dumped imports from the subject countries;

and had recommended imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from, the subject countries;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (5) of Section 9A of the said Customs Tariff Act, and rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under sub-heading of the First Schedule to the said Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), the specification of which is specified in column (4) originating in the country as specified in the corresponding entry in column (5), when exported from the country as specified in the corresponding entry in column (6), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (7), by the exporters as specified in the corresponding entry in column (8), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount indicated in the corresponding entry in column (9), in the currency as specified in the corresponding entry in column (11), and per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (10), of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Sub-heading	Description of Goods	Specification	Country of origin	Country of Export	Producer	Exporter	Duty Amount	Unit of measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	5402 47	All Fully Drawn or Fully Oriented Yarn/Spin Draw Yarn/Flat Yarn of Polyester (non-textured and non-POY)	Any	China PR	China PR	Tongkun Group Co. Ltd.	Tongkun Group Co. Ltd.	240	Metric tonne	US Dollar
2.	5402 47	All Fully Drawn or Fully Oriented Yarn/Spin Draw Yarn/Flat Yarn of Polyester (non-textured and non-POY)	Any	China PR	China PR	Tongkun Group Hengsheng Chemical Fibre Co. Ltd.	Tongkun Group Hengsheng Chemical Fibre Co. Ltd.	247	Metric tonne	US Dollar
3.	5402 47	All Fully Drawn or Fully Oriented Yarn/Spin Draw Yarn/Flat Yarn of Polyester (non-textured and non-POY)	Any	China PR	China PR	Jiangsu Hengli Chemicals Fibre Co. Ltd.	Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co. Ltd.	256	Metric tonne	US Dollar
4.	5402 47	All Fully Drawn or Fully Oriented Yarn/Spin Draw Yarn/Flat Yarn of Polyester (non-textured and non-POY.)	Any	China PR	China PR	Any other than combination at Serial number 1 to 3 above		547	Metric tonne	US Dollar
5.	5402 47	All Fully Drawn or Fully Oriented Yarn/Spin Draw Yarn/Flat Yarn of Polyester (non-textured and non-POY)	Any	China PR	Any other than China PR	Any	Any	547	Metric tonne	US Dollar
6.	5402 47	All Fully Drawn or Fully Oriented Yarn/Spin Draw Yarn/Flat Yarn of Polyester (non-textured and non-POY)	Any	Any country other than countries attracting anti-dumping duties	China PR	Any	Any	547	Metric tonne	US Dollar
7.	5402 47	All Fully Drawn or Fully Oriented Yarn/Spin Draw Yarn/Flat Yarn of Polyester (non-textured and non-POY)	Any	Vietnam	Vietnam	Any	Any	350	Metric tonne	US Dollar
8.	5402 47	All Fully Drawn or Fully Oriented Yarn/Spin Draw Yarn/Flat Yarn of Polyester (non-textured and non-POY)	Any	Vietnam	Any other than Vietnam	Any	Any	350	Metric tonne	US Dollar

4090505-2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9.	5402 47	All Fully Drawn or Fully Oriented Yarn/Spin Draw Yarn/Flat Yarn of Polyester (non-textured and non-POY)	Any	Any country other than countries attracting anti-dumping duties	Vietnam	Any	Any	350	Metric tonne	US Dollar
10.	5402 47	All Fully Drawn or Fully Oriented Yarn/Spin Draw Yarn/Flat Yarn of Polyester (non-textured and non-POY)	Any	Thailand	Thailand	Indorama Polyester Industries Public Company Limited [formerly Indo Poly (Thailand Ltd.)]	Indorama Polyester Industries Public Company Limited [formerly Indo Poly (Thailand Ltd.)]	80	Metric tonne	US Dollar
11.	5402 47	All Fully Drawn or Fully Oriented Yarn/Spin Draw Yarn/Flat Yarn of Polyester (non-textured and non-POY)	Any	Thailand	Thailand	Any other than combination at Serial number 10 above		490	Metric tonne	US Dollar
12.	5402 47	All Fully Drawn or Fully Oriented Yarn/Spin Draw Yarn/Flat Yarn of Polyester (non-textured and non-POY)	Any	Thailand	Any other than Thailand	Any	Any	490	Metric tonne	US Dollar
13.	5402 47	All Fully Drawn or Fully Oriented Yarn/Spin Draw Yarn/Flat Yarn of Polyester (non-textured and non-POY)	Any	Any country other than countries attracting anti-dumping duties	Thailand	Any	Any	490	Metric tonne	US Dollar

2. The anti-dumping duty imposed shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of imposition of the provisional anti-dumping duty, that is 26th March, 2009 and shall be payable in Indian currency.

Explanation.—For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under Section 46 of the said Customs Act.

[F.No.354/29/2009-TRU]

PRASHANT KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2009

सं. 125/2009-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 810(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 21/2002-सीमा-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 118(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा :—

उक्त अधिसूचना में,

(क) प्रस्तावना में, परंतुक में, खण्ड (जक) में, शब्द और अक्षर "1 अप्रैल, 2010" के स्थान पर, शब्द और अक्षर "1 जनवरी, 2011" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(ख) सारणी में, क्रम सं. 38खख के सामने, स्तम्भ की प्रविष्टि में, शब्द और अक्षर "30 नवम्बर, 2009 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है" के स्थान पर शब्द और अक्षर "31 मार्च, 2010 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 354/78/2009-टीआरयू (पार्ट)]

प्रशान्त कुमार, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना सं. 21/2002-सीमा-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 118(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 118/2009-सीमा-शुल्क, तारीख 14 अक्टूबर, 2009 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 751(अ), तारीख 14 अक्टूबर, 2009 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2009

No. 125/2009-CUSTOMS

G.S.R. 810(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 21/2002-Customs, dated the 1st March, 2002, which was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 118(E) of the same date, namely :—

In the said notification,

(a) in the preamble in the proviso, in clause (ga), for the words and figures, "the 1st day of April, 2010", the words and figures, "1st day of January, 2011" shall be substituted.

(b) In the Table against S. No. 38BB, in the entry in column (3), for the words and figures "the period upto and inclusive of 30th November, 2009", the words and figures "the period up to and inclusive of 31st March, 2010" shall be substituted

[F.No.354/78/2009-TRU (Pt.)]

PRASHANT KUMAR, Under Secy.

Note :—The principal Notification No. 21/2002-Customs, dated the 1st March, 2002 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G. S.R. 118 (E), dated the 1st March, 2002 and was last amended *vide* Notification No. 118 /2009-Customs, dated the 14th October, 2009 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 751(E), dated the 14th October, 2009.

